

151 Breakfast Recipes in Hindi 151 ब्रेकफास्ट रेसिपी इन हिंदी



आज हम आपके लिए 151 Breakfast Recipes in Hindi ब्रेकफास्ट रेसिपी इन हिंदी लेकर आए हैं। फटाफट नाश्ता (Veg Recipes in Hindi for Breakfast) आज हर किसी की जरूरत है। इसीलिए लोग हमसे अक्सर Indian Snacks Recipes in Hindi और Instant Breakfast Recipes in Hindi पूछते रहते हैं। आप भी अगर आसान नाश्ता रेसिपी चाहते हैं, तो हमारी Veg Breakfast Recipes in Hindi ट्राई करके देखें। हमें यकीन है कि ये 151 Breakfast Recipes in Hindi आपको जरूर पसंद आएंगी।

151 ब्रेकफास्ट रेसिपी इन हिंदी - 151 Breakfast Recipes in Hindi

पनीर के पकोड़े



पनीर के व्यजनों में पनीर के पकोड़े [Paneer Ke Pakode](#) बेहद मशहूर हैं। ये टेस्टी तो होते ही हैं साथ ही बनाने में भी आसान हैं। ये एक पॉपुलर Nasta Recipes in Hindi है। इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं।

बेसन के पकोड़े



बेसन के पकोड़े [Besan Ke Pakode](#) बेसन और प्याज से बनाए जाते हैं। इसलिए इसे प्याज के पकोड़े Onion Pakora भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे बेसन भजिया Besan Bhajiya के नाम से भी जाना जाता है। ये Breakfast Recipes in Hindi की बेहद पॉपुलर डिश है, सभी लोग शौक से खाते हैं।

ब्रेड पकोड़ा



आलू ब्रेड पकौड़ा [Aloo Bread Pakora](#) का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। ये इंडिया की पॉपुलर ब्रेकफास्ट रेसिपी इन हिंदी है। इसे आप जब भी बनाएंगे, हर किसी से तारीफ पाएंगे।

ब्रेड रोल



अगर आप Instant Recipes in Hindi की चाहत में हैं, तो ब्रेड रोल Bread Roll एक बेहतर ऑप्शन है। आलू ब्रेड रोल [Aloo Bread Roll](#) बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। वेज ब्रेड रोल Veg Bread Roll बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है।

फ्रेंच फ्राइज



अगर आप Easy Snacks Recipe in Hindi चाहते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज [French Fries](#) से बेहतर कुछ नहीं। फ्रेंच फ्राइज को फिंगर चिप्स Finger Chips भी कहते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और चाय या कोल्डड्रिंक दोनों के साथ टेस्टी लगते हैं।

फ्रेंच टोस्ट



अगर आप नाश्ते के लिए New Recipe in Hindi की तलाश में हैं, तो स्वीट फ्रेंच टोस्ट [Sweet French Toast](#) जरूर ट्राई करें। फ्रेंच टोस्ट बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद लज़ीज़ होता है। ये सभी लोगों को पसंद आता है और झटपट बन जाता है।

आलू सैंडविच



पोटैटो सैंडविच या आलू सैंडविच [Aloo Sandwich](#) आसानी से बन जाती है। ये एक लोकप्रिय Veg Breakfast Recipes in Hindi है। आप भी अगर इसे एक बार आजमाएं, तो बार बार बनाना चाहेंगे।

वेज सैंडविच



जब भी झटपट नाश्ता बनाना हो, वेज सैंडविच [Veg Sandwich](#) एक आसान उपाय है। ये जितनी आसानी से बनती है, उतनी ही टेस्टी भी होती है। इसे बच्चे भी बना सकते हैं। ये एक परफेक्ट Nasta Recipe Hindi है।

मेयोनीज सैंडविच



New Recipes for Breakfast in Hindi के लिए मेयोनीज सैंडविच [Mayonnaise Sandwich](#) से बढ़िया चीज कोई दूसरी नहीं। इसमें खीरा और टमाटर का इस्तेमाल भी होता है, इसलिए इसे खीरा टमाटर सैंडविच Cucumber Tomato Sandwich भी कहते हैं।

[सूजी दही सैंडविच](#)



Veg Recipes in Hindi for Breakfast में दही सैंडविच [Dahi Sandwich](#) बेहद पापुलर है। दही सैंडविच बेहद यमी होती है। इसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और झटपट चट कर जाते हैं।

ब्रेड पिज्जा



अगर आप Latest Recipe in Hindi की तलाश में हैं, तो फिर ब्रेड पिज्जा [Bread Pizza](#) एक लाजवाब स्नैक्स है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। और खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि आप मार्केट का पिज्जा लाना भूल जाएंगे।

ब्रेड पनीर रोलस



ब्रेड पनीर रोल [Bread Paneer Roll](#) बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ये Indian Snacks Recipes in Hindi का लाजवाब उदाहरण है। तो फिर सोच विचार में समय न गंवाएं और झटपट ब्रेड पनीर रोल बनाएं।

बनाना कटलेट



Indian Recipes in Hindi में केला कई तरह से इस्तेमाल होता है। कच्चे केले के कटलेट [Kele ke Cutlet](#) उसी का लोकप्रिय रूप है। यह नाश्ते के लिए एक बेहतर स्नैक्स है। इसे आप चाय के साथ या फिर हल्के फुल्के नाश्ते के रूप में ले सकते हैं।

मिसल पाव



मिसल पाव [Misal Pav](#) एक पॉपुलर है स्नैक्स है। ये एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है और Breakfast Recipes for kids in Hindi का नायाब नमूना है। अगर आप इसे आजमाएंगे, तो यकीनन इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे।

मसाला वड़ा



क्रिस्पी मसाला वड़ा [Crispy Masala Vada](#) उड़द दाल के बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये टी-टाइम के लिए एक बेहतर स्नैक्स है और Breakfast Recipes in Hindi veg के लिए परफेक्ट उदाहरण है। इसे चाय से साथ एक बार जरूर आजमाएं, हो सकता है आप इसके स्वाद के फैन हो जाएं।

आलू टिककी



आलू की टिककी [Aloo Patties](#) कुछ लोगों को तो इतना पसंद आती है, कि इसका नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है, तो यह Recipe of Breakfast in Hindi अभी ट्राई करें।

Read- [20 Chaat Recipes in Hindi](#)

वेज मोमोज



मोमोज [Momos](#) भाप से पकने वाला तिब्बती (चायनीज) पकवान है और इंडिया में भी बेहद पॉपुलर है। ये एक आसान Nasta Banane ki Vidhi है। वेज मोमोज Veg Momos पौष्टिक होने के साथ-साथ बच्चों को भी बेहद पसंद आता है। आप भी इसे आजमा कर जरूर देखें।

वेज स्प्रिंग रोल



अगर आप कुछ स्पेशल नाश्ता बनाना चाहते हैं और आपके दिमाग में How to Make Breakfast in Hindi गूँज रहा है, तो वेज स्प्रिंग रोल [Veg Spring Rolls](#) के बारे में जरूर सोचें। अगर आप चायनीज फूड के शौकीन हैं, तो ये आपको जरूर पसंद आएगा।

नूडल्स स्प्रिंग रोल



बच्चों को चाइनीज फूड में नूडल्स बहुत पसंद आते हैं और साथ ही साथ स्प्रिंग रोल भी। लेकिन अगर आप उन्हें कुछ नया देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो नूडल्स स्प्रिंग रोल [Noodle Spring Roll](#) एक बेहतर ऑप्शन है। ये इंडिया में इतना पापुलर है कि अब Indian Fast Food Recipes in Hindi के रूप में जाना जाता है।

मिक्स वेज पास्ता



अगर आप Recipe of Breakfast Snacks in Hindi के बारे में सोच रहे हैं तो मिक्स वेज पास्ता [Mix Veg Pasta](#) आप ही के लिए है। ये मसाला पास्ता की तुलना में सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके अनोखे स्वाद के कारण बच्चे तो इसके दिवाने हाते हैं।

व्हाइट सॉस पास्ता



व्हाइट सॉस पास्ता [White Sauce Pasta](#) एक इटैलियन फूड है, जो वाइट सॉस में बनता है। ये एक New Breakfast Recipes in Hindi है। व्हाइट सॉस पास्ता एक बार ट्राई करके देखें, आप इसके मुरीद न हो जाएं, तो कहना।

मसाला पास्ता



मसाला पास्ता [Masala Pasta](#) या मैकरोनी पास्ता Macaroni Pasta एक Easy Snacks Recipe in Hindi है। ये एक पापुलर स्ट्रीट फूड है। आजकल की जनरेशन इसकी दिवानी है। आप भी इसे घर में बनाएं और ठेले वाला स्वाद घर बैठे पाएं।

रवा ढाेकला



अगर आप हेल्दी Breakfast Dishes in Hindi के बारे में सोच रहे हैं, तो सूजी का ढोकला [Suji ka Dhokla](#) जरूर आजमाएं। रवा का ढोकला Rava ka Dhokla खाने में बेहद टेस्टी होता है। और हां, ये झटपट बन जाता है।

वेजीटेबल मंचूरियन



चायनीज रेसिपीज में मंचूरियन [Manchurian](#) एक ऐसी डिश है, जिसने पिछले कुछ-एक वर्षों में भारतीय थाली में तेजी से जगह बनाई है। ये New Recipes in Hindi चाहने वालों के लिए बढ़िया नाश्ता है। आप भी इसे एक बार आजमा कर देखें।

वेजीटेबल मैकरोनी



Instant Recipes in Hindi के रूप में आजकल वेज मैकरोनी [Veg Macaroni](#) बेहद फेमस है। ये झटपट बनने वाला स्नैक्स है, जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है। आप भी इसे एक बार जरूर आजमाएं।

वेजीटेबल हक्का नूडल्स



अगर आप New Recipes for Breakfast in Hindi की चाहत में हैं, तो हक्का नूडल्स [Hakka Noodles](#) पर जरूर गौर फरमाएं। ये एक चायनीज व्यंजन है और आजकल बेहद लोकप्रिय है। वेज हक्का नूडल्स Veg Hakka Noodles की खास बात ये है कि ये झटपट बन जाते हैं और बेहद टेस्टी होते हैं।

वेजीटेबल फ्राइड नूडल्स



चाइनीज़ नूडल्स [Chinese Noodles](#) या Veggie Noodles एक लोकप्रिय Breakfast Recipes in Hindi है। ये अब इंडिया का लोकप्रिय फास्टफूड बन चुका है। इसके अनूठे स्वाद के कारण सभी उम्र के लोग इसे शौक से खाते हैं।

फ्रूट कस्टर्ड



फ्रूट कस्टर्ड [Fruit Custard](#) एक आसान Nasta Recipe Hindi है। ये एक स्वीट डिश है और बनाने में बेहद आसान है। इसका स्वाद सभी लोगों को पसंद आता है। हल्के फुल्के नाश्ते के लिए ये बेहतर स्नैक्स है।

[खमन ढोकला](#)



खमन ढोकला [Khaman Dhokla](#) एक गुजराती व्यंजन है। बेसन का ढोकला Besan Ka Dhokla भी कहते हैं। ये Recipes of Breakfast in Hindi का आसान व्यंजन है। खमन ढोकला सेहत के नजरिए से भी अच्छा होता है। इसीलिए हेल्थ कांशस लोग खमन ढोकला को बेहद पसंद करते हैं।

ओटमील बेसन ढोकला



अगर आप नाश्ते के लिए New Recipe in Hindi ट्राई करना चाहते हैं, तो ओटमील बेसन ढोकला [Oats Besan Dhokla](#) पर जरूर गौर फरमाएं। ओट्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसीलिए ओट्स का ढोकला बेहद हेल्दी होता है। और हां, ढोकला है, तो टेस्टी तो होगा ही।

Read- [66 Snacks Recipes in Hindi](#)

सादा डोसा



डोसा एक साउथ इंडियन रेसिपी South Indian Recipe है। प्लेन डोसा [Plain Dosa](#) बनाने में आसान है और खाने में लाजवाब। ये Veg Breakfast Recipes in Hindi का एक शानदार उदाहरण है। आप भी आज प्लेन डोसा बनाएं और इसका आनंद उठाएं।

ओट डोसा



अगर आप हेल्दी Breakfast Dishes in Hindi पसंद करते हैं, तो ओट्स डोसा ट्राई करें। गेहूं के मुकाबले ओट्स में ज्यादा फाइबर पाया जाता है। इस वजह से यह सेहत के लिये बेहद फायदेमंद होता है। और हां, ओट्स डोसा [Oats Dosa](#) टेस्टी भी होता है।

मसाला डोसा



स्ट्रीट फूड के शौकीन लोग मसाला डोसा [Masala Dosa](#) के दिवाने होता हैं। ये एक आसान Nasta Recipes in Hindi है। आप हमारी स्पेशल रेसिपी अपना कर घर में भी रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी मसाला डोसा बना सकते हैं।

पनीर डोसा



Breakfast Recipes Hindi के शौकीनों के लिए पनीर मसाला डोसा [Paneer Masala Dosa](#) एक शानदार व्यंजन है। यह मसाला डोसा Masala Dosa की तरह पनीर डोसा Paneer Dosa भी बेहद टेस्टी होता है। आप भी इसे ट्राई करके देखें।

ब्रेड डोसा



अगर आप झटपट बनने वाली Recipe of Breakfast in Hindi चाहते हैं, तो ब्रेड डोसा [Bread Dosa](#) पर गौर फरमाएं। ब्रेड डोसा बेहद कम समय में बन जाता है और अपने स्वाद के कारण सभी लोगों को पसंद आता है।

रवा उत्तपम



उत्तपम Uttapam Uttapam एक साउथ इंडियन Nasta Recipe in Hindi है, जो अपने स्वाद के कारण सारे भारत में लोकप्रिय है। रवा उत्तपम [Rava Uttapam](#) बेहद हेल्दी पकवान है, जिसे आप नाश्ते के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को टिफिन के रूप में भी दे सकते हैं।

उड़द दाल वड़ा



वड़ा और सांबर दक्षिण भारत का लोकप्रिय नाश्ता है। ये वड़ा उड़द की दाल से बनते हैं। इन्हें उड़द दाल वड़ा [Urad Dal Vada](#) और मेदू वड़ा Medu Vada भी कहते हैं। ये खाने में बेहद टेस्टी होते हैं। उड़द दाल वड़ा Veg Recipes in Hindi for Breakfast के लिए सर्वोत्तम विकल्प है।

रवा इडली



रवा इडली [Rava Idli](#) बेहद साफ्ट होती है। Indian Nasta Recipe in Hindi के प्रेमी इसके बारे में अक्सर पूछते हैं। रवा की इडली Rava ki Idli चावल की इडली की तुलना में जल्दी बन जाती है। इसीलिए यह नाश्ता प्रेमियों को बहुत लुभाती है।

चावल की इडली



चावल की इडली [Rice Idli](#) एक पारम्परिक नाश्ते का पकवान है। यह Recipes for Breakfast in Hindi की श्रेणी में बेहद लोकप्रिय है। आप भी नाश्ते में वरायटी के लिए इसे आजमा सकते हैं। उम्मीद है आपको चावल की इडली जरूर पसंद आएगी।

कांजीवरम इडली



अगर आप New Recipes for Breakfast in Hindi की खोज में हैं, तो कांजीवरम इडली [Kanjeevaram Idli](#) एक बेहतर व्यंजन है। यह पारम्परिक इडली से अतर है और स्वाद में बेहतर होती है। यकीन जानें, कांजीवरम इडली आपको जरूर पसंद आएगी।

मेंगो इडली



मेंगो के सीजन में मेंगो इडली [Mango Idli](#) एक बार जरूर ट्राई करें। ये New Recipe in Hindi बनाने में बेहद आसान है। और हां, खाने में तो टेस्टी होती ही है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, झटपट मेंगो इडली रेसिपी ट्राई करें।

बेसन का चीला



Rajasthani Breakfast Recipes in Hindi में बेसन चीला [Besan ka Cheela](#) बेहद फेमस है। बेसन का चिल्ला Besan ka Chilla एक प्रकार का डोसा है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। यह राजस्थानी डिश है, जिसे बच्चों के नाश्ते और टिफिन में दिया जा सकता है।

वेज ऑमलेट



वेज आमलेट [Veg Omelette](#) टोमैटो आमलेट Tomato Omelette के नाम से भी जाना जाता है। यह Breakfast Recipes in Hindi Veg प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। क्योंकि यह एग ऑमलेट Egg Omelette की तरह ही बेहद टेस्टी होता है।

वड़ा पाव



वड़ा पाव [Vada Pav](#) अथवा बटाटा वड़ा Batata Vada मुम्बई का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड Street Food है। बटाटा वड़ा Batata Vada की खास बात यह है कि यह बेहद सस्ता खाना है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसीलिए Instant Recipes in Hindi के शौकीन लोग इसे बेहद पसंद करते हैं।

राजस्थानी पपरा



पपरा Papra देखने में बेसन के चीला जैसा लगता है। पर चीला में जहां बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं राजस्थानी पपरा [Rajasthani Papra](#) में चने की दाल और चावल का प्रयोग होता है। इसी वजह से राजस्थानी पपरा Rajasthani Papra का स्वाद बेसन के चीला Besan ka Chilla से बेहतर होता है। इसीलिए यह Rajasthani Breakfast Recipes में बेहद पापुलर है।

[Read- 18 South Indian Recipes in Hindi](#)

फ्रेंड्स, उम्मीद है कि 151 Breakfast Recipes in Hindi ब्रेकफास्ट रेसिपी इन हिंदी का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। Instant Recipes in Hindi का ये सिलसिला पार्ट-2 में जारी रहेगा। Veg Breakfast Recipes in Hindi की बाकी रेसिपीज को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें >>>

<https://www.lazizkhana.com/2018/07/101-breakfast-recipes-hindi.html>